



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

का.आ. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के 248.400 कि.मी से 310.000 कि.मी तक के भू-खण्ड (बहराइच—श्रावस्ती सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाया जाना/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा बहराइच को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के 248.400 कि.मी. से 310.000 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	बहराइच	बहराइच	रतनापुर टेपरहा	1157	निजी	कृषि	0.0168
				योग			0.0168
			सुजातपुर	517	निजी	कृषि	0.0010
				योग			0.0010
				समपूर्ण योग			0.0178

[फा. सं. एन.एच.-12037 / 37 / 2017 / यू.पी. / जोन-1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2018

S.O. 91(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two- laning with paved shoulders / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.730 in the stretch of land from km 248.400 to km 310.000 (Bahraich to Shravasti Section) in the district of Bahraich in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer (S.L.A.O), Bahraich, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within National Highway No. 730 in the stretch of land from km. 248.400 to km. 310.000 in the state of Uttar Pradesh.

Sr. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in hact.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bahraich	Bahraich	Ratnapur Tephraha	1157	Private	Agriculture	0.0168
				Area			0.0168
			Sujatpur	517	Private	Agriculture	0.0010
				Area			0.0010
				Total Area			0.0178

[F. No. NH-12037/37/2017/UP/Zone-I]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.